

## हिन्दी सर्टिफिकेट परीक्षा पाठ्यक्रम

इस पत्र के अध्ययन के उपरांत छात्र जान सकेंगे –क) छात्र हिन्दी वर्ण, शब्द, वाक्य आदि के प्रयोग को जान सकेंगे ख) छात्र हिन्दी भाषा में पत्र, निबंध आदि लिख सकेंगे | विशेष- इस पत्र के अध्ययन के उपरांत प्राप्त जानकारी का उपयोग करके वे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो सकेंगे |

तीन घंटों के दो प्रश्न पत्र होंगे | प्रत्येक के अंक 80 होंगे |

मौखिक परीक्षा 100 अंकों की होगी |

प्रश्नपत्र – 1 : भाषा

व्याकरण - 16

कम्पोजीशन - 16

अनुवाद - 16

निबंध लेखन - 16

कम्प्रीहेन्शन - 16

बोधशक्ति -----

80

आन्तारिक 20

-----

100

### पाठ्यक्रम निम्नवत होगा :-

व्याकरण : संधि, समास, कारक, अशुद्धि –शोधन, विराम चिह्नों के प्रयोग |

कम्पोजीशन : लोकोक्ति और मुहावरों के अर्थ एवं उनके प्रयोग, विराम चिह्नों के प्रयोग |

कम्प्रीहेन्शन : गद्य एवं पद्य से दो अपठित अवतरण सारांश, लेखन के लिए दिए जाएंगे |

एप्रितीएशन : उनका प्रसारण, व्याख्या एवं प्रश्नों का उत्तर

(विचारणा) परीक्षार्थियों की बोध शक्ति – परीक्षण के लिए अपेक्षित है |

निबंध-लेखन : परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह दिए गए विषयों में किसी एक विषय पर निबंध लिखें |

अनुवाद : अनुवाद करने के लिए लगभग 10 पंक्तियों के एक अंग्रेजी गद्य का अवतरण दिया जाय जिसे आसानी से समझा जा सके | कठिन शब्दों एवं मुहावरों के हिन्दी समानार्थी शब्द भी दिए जाँय |

## हिन्दी सर्टिफिकेट

### प्रश्न पत्र -2 : साहित्य

इस पत्र के अध्ययन के उपरांत छात्र जान सकेंगे – क) छात्र हिन्दी कविता और हिन्दी गद्य के कुछ बेहतरीन रूप से परिचित हो सकेंगे।  
विशेष- पत्र के अध्ययन के उपरांत प्राप्त ज्ञान का उपयोग कर छात्र विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकेंगे।

गद्य पाठ्य ग्रंथ - 48

काव्य पाठ्य ग्रंथ – 32

-----

80

आंतरिक 20

-----

100

विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है की वे पाठ्य अवतरणों का अच्छी तरह अध्ययन करें, ताकि वे उस पर स्पष्ट बोध प्राप्त कर सकें। सामान्य निबंधात्मक प्रश्नों के अलावा संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या के लिए अवतरण दिए जाएँगे। विद्यार्थियों का पाठ्यग्रंथ – पर आलोचनात्मक ज्ञान की अपेक्षा साधारण बोध का पता लगाया जाय।

### पाठ्य – विषय :

(अ) हाईस्कूल पद्य संकलन : उत्तर प्रदेश सरकार

- 1 कर्तव्य और सत्यता – श्याम सुन्दर दास।
- 2 मित्रता - रामचंद्र शुक्ल
- 3 मंत्र - प्रेमचंद
- 4 ममता - जयशंकर प्रसाद
- 5 भारतीय संस्कृति - राजेंद्र प्रसाद
- 6 गुरुनानक देव - हजारीप्रसाद द्विवेदी
- 7 गिल्लू - महादेवी वर्मा

(ब) काव्य संकलन : माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित हाईस्कूल की कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक।

- 1 गीत - मैथिली शरण गुप्त
- 2 आह्वान –गीत - जयशंकर प्रसाद
- 3 तोंडती पत्थर - सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'
- 4 यह धरती कितना देती है - सुमित्रानंदन पंत

- 5 अधिकार - महादेवी वर्मा  
6 पुष्प की अभिलाषा - माखनलाल चतुर्वेदी

## हिन्दी सर्टिफिकेट

### प्रश्न पत्र – 3 : मौखिक परीक्षा

इस पत्र के अध्ययन के उपरांत गैर हिन्दी भाषी छात्र भी हिन्दी में लिख-पढ़ सकेंगे।

विद्यार्थियों के महावरेदार हिन्दी की समझ, शुद्ध उच्चारण की क्षमता एवं हिन्दी साहित्य के प्रति सामान्य ज्ञान की क्षमता का आकलन किया जाय। मौखिक परीक्षा निम्न आधार पर ली जाय :-

- (क) अपठित अवतरणों का वाचन : 25  
(ख) उपरोक्त के अर्थ से सम्बंधित प्रश्न : 25  
(ग) हस्त लेख का वाचन : 15  
(घ) देवनागरी लिपि में इमला लेखन : 15  
(ङ) प्रमुख हिन्दी साहित्यकारों एवं पुस्तकों पर आधारित प्रश्न : 20